

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251737  
SG-DL-E-02022024-251737असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2024/माघ 12, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 414
No. 44]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2024/MAGHA 12, 1945	[N. C. T. D. No. 414

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2024

फा. सं. 50(12)/डीसी/स्था./2023/62—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 03.02.2000 की अधिसूचना सं. फा. 11(6)/97—पीएचसी/टीआरसी/3044—3050 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग में प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,  
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा  
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।  
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	:	1* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—'ग'
4.	वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4 (रुपये 25500—81100/—)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25 वर्ष*  (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।)  टीपः— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।  *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः—  1. फार्मसी/विज्ञान (रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान विषयों के साथ) में स्नातक उपाधि।  2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औषधियों के रसायनिक विश्लेषण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

		<p><b>टीप 1:</b> अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p> <p><b>टीप 2:</b> यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: 02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदान्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	<p>: सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टीप :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले तथा नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>: <b>स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति</b></p> <p>1. प्रधान सचिव/सचिव (लो.नि.वि.), रा.रा.क्षे.दि.सर. —<b>अध्यक्ष</b>  2. संबंधित विभागाध्यक्ष, रा.रा.क्षे.दि.सर. —<b>सदस्य</b>  3. उप-सचिव (शह0वि0), रा.रा.क्षे.दि.सर. —<b>सदस्य</b></p> <p><b>टीप :-</b> यदि विभागीय समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. मीणा, उप सचिव

**HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT****NOTIFICATION**

Delhi, the 1st February, 2024

**F. No. 50(12)/DC/Estt./2023/62.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24.09.1968 and in supersession of the Notification No. F.11(6)/97-PHC/TRC/3044-3050 dated 03.02.2000 issued by this Government, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant (Chemistry) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

**1. Short title and commencement-**

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Laboratory Assistant (Chemistry) Recruitment Rules, 2024
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and pay level in pay matrix-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.**4. Disqualification.-**No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Recruitment Rules for the post of Laboratory Assistant (Chemistry) in the Drugs Control Department,  
Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Laboratory Assistant (Chemistry)	1* (2024)  *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group-‘C’	Level 4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix	Not applicable	18-25 years*  (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority  *In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10
<b>Essential:-</b> 1. Bachelors Degree in Pharmacy/Science (with Chemistry, Botany and Zoology subjects) 2. One year's experience in the field of Chemical analysis of Drugs from a recognised Institution <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Casts or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them	Not applicable	02 years	By Direct recruitment  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/ State Government/ UTs holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.  (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)

In case of Recruitment by promotion /Deputation/Absorption grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	<b>Group 'C' DPC for considering Confirmation:</b> 1. Pr. Secretary/ Secretary (PWD), GNCTD - <b>Chairperson</b> 2. Head of the Department concerned, GNCTD - <b>Member</b> 3. Deputy Secretary (UD), GNCTD - <b>Member</b> <b>Note:</b> Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering Confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of Departmental the Committee happens to be junior to another member of the Committee	Consultation with UPSC is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,  
 R. K. MEENA, Dy. Secy.